



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 248]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 31, 1979/पौष 10, 1901

No. 248]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 31, 1979/PAUSA 10, 1901

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विस्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(अप्रत्यक्ष-कर विभाग)

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 1979

सार्वजनिक सूचनाएं

सं० प्रतिप्रवायगी/सां०सू० 92/79—सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिप्रवायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/फा०सं० 602/2/70-प्र०प्र०) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार समय-समय पर यथासंशोधित सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिप्रवायगी/सां०सू० 1, दिनांक 15 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उप-क्रम सं० 2106 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थातः—

उप क्रम सं०	भाल का विवरण	प्रतिप्रवायगी की दर
1	2	3
2106.	अन्यथा अधिनियमित, हल्के और भारी किस्म के जमड़े का सामान, जिसमें सरीसृप चर्म, लोम (कर) चर्म और	

1

2

3

आवृत्त चर्म शामिल नहीं हैं—

- (क) काठी
- ग्राह्य दरें अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता से आयेदन-पत्र प्राप्त होने पर नियत की जाती हैं।
- (ख) पीतल की फिटिंगों सहित लगाम और घगाड़ी।
- पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 4 प्रतिशत (केवल चार प्रतिशत)।
- (ग) पीतल/इस्पात की फिटिंगों सहित चालन-साज।
- पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 4.5 प्रतिशत (केवल चार दशमलव पांच प्रतिशत)।
- (घ) जमड़े के परिधान
- पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 2.25 प्रतिशत (केवल दो दशमलव पच्चीस प्रतिशत)।
- (ङ) अन्यथा अधिनियमित जमड़े का अन्य सभी सामान।
- पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 1.75 प्रतिशत (केवल एक दशमलव पच्चीस प्रतिशत)।

जमा.

जहां ऊपर (ख) और (ङ) के अंतर्गत आने वाले जमड़े के सामान में, आयातित अथवा स्वदेशी जिप कगनियां फिट की हुई हों, वहां निर्यातकर्ताओं को यथास्थिति सीमाशुल्क अथवा

1	2	3
	केन्द्रीय उत्पादनशुल्क भी दिया जाएगा :	
	अधार्त निर्यातकर्ता सहायक सीमा-शुल्क समारुता के समाधानप्रद रूप में, निम्नलिखित के बारे में साक्ष्य प्रस्तुत करें—	
	निर्यात माल में फिट की हुई संगत आकार की जिप कसनियाँ के प्रति नग पर आयात शुल्क अक्षा कर दिया गया है और जिप कसनियाँ उक्त बमड़े के माल के आयात की तारीख से पूर्व छः माह के भीतर ही आयात की गई हैं, और जिप कसनियों की उक्त तादाद—	
(क)	बमड़े अथवा अन्य माल के किसी पहले के निर्यात के प्रति हिसाब में नहीं ली गई हैं तथा उससे सहसंबंधित नहीं की गई हैं और/अथवा	
(ख)	इस रूप में अथवा किसी अन्य रूप में प्रतिअवामगी के बावें के साथ अथवा उसके बिना पहले पुनः निर्यात नहीं की गई हैं।	
	अथवा	
(i)	निर्यात माल के साथ फिट की गई संगत आकार की जिप-कसनियों के प्रति नग पर केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की प्रथम अनुसूची की मद 53 के अंतर्गत समस्त केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अक्षा कर दिया गया हो, और उक्त जिप कसनियाँ उक्त बमड़े के माल के निर्यात की तारीख से पूर्व छः माह के भीतर प्राप्त कर ली गई हो, जमा	
(ii)	उप कम सं० 5902 के अंतर्गत, उसमें उल्लिखित आकारों के लिए	

1	2	3
		स्वीकार्य दर पर प्रतिअवामगी।
	यह सांख्यिक सूचना मई, 1979 के बमड़े दिन से लागू हुई समझी जाएगी और मई, 1979 के इकतीमवे दिन तक लागू रहेंगी।	

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(Indirect Taxes Division)

New Delhi, the 31st December, 1979

## PUBLIC NOTICES

No. Drawback/PN-92/79.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No.52/F. No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India, Extra-ordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN:1 dated the 15th October, 1971, as amended from time to time.

For sub-serial No. 2106 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

Sub-Sl. No.	Description of goods	Rate of drawback
1	2	3
2106.	Light and Heavy categories of leather goods not otherwise specified, excluding those made of reptile skins, fur skins and hair-on-skins—	
(a)	Saddlery	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturers/exporters.
(b)	Bridles and Halters with brass fittings.	4% (Four per cent only) of the f.o.b. value.
(c)	Driving Harness with brass/steel fittings.	4.5% (Four point five per cent only) of the f.o.b. value.
(d)	Leather Apparel.	2.25% (Two point twenty-five per cent only) of the f.o.b. value.
(e)	All other leather goods not otherwise specified.	1.75% (One point seventy five per cent only) of the f.o.b. value.
		PLUS
		Where the leather goods covered by (d) and (e) above are fitted with imported or indigenous Zip fasteners the exporters shall also be paid the duty of Customs or the duty of Central Excise, as the case may be :
		Provided that the exporter produces evidence to the satisfaction of the Assistant Collector of Customs regarding the—
		Import duty paid per piece of Zip fastener of the relevant size fitted to the

1	2	3
	export goods and the said Zip fastener has been imported within a period of six months preceding the date of importation of the said leather goods, and the said quantity of Zip fasteners has not been—	
	(i) Similarly co-related to and accounted for against any other previous exportation of leather or other goods and/or	
	(b) Previously re-exported as such or in any other form, with or without claim for drawback.	
	OR	
	(i) The whole of the duty of Excise paid per piece of Zip fasteners of relevant size fitted to the export goods, under Item 53 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944, and the said Zip fasteners have been procured within six months from the date of exportation of the said leather goods, plus	
	(ii) The drawback at the rate admissible under sub-serial No. 5902 for the sizes mentioned therein.	

This Public Notice shall be deemed to have come into force on the 10th day of May, 1979 and shall remain in force till 31st day of May, 1979.

सं० प्रतिप्रदायगी सं० सू० 93/79.—सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिप्रदायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, प्रमाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/का० सं० 602/2/70-प्र० प्र०) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार समय-समय पर यथासंशोधित सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिप्रदायगी/सा० सू० 1, दिनांक 15 अक्टूबर 1971 में प्रकाशित तारणी में एतद्वारा निम्नलिखित मशौधन करती है:—

उप क्रम सं० 2103 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अथवा:—

उपक्रम सं०	माल का विवरण	प्रतिप्रदायगी की दर
1	2	3
2104.	अन्यथा अधिनिर्दिष्ट, हल्के और भारी किस्म के चमड़े का सामान	

1	2	3
	जिनमें सरीसृप चर्म, लोम (फर) चर्म और भाव युक्त चर्म शामिल नहीं है—	
(क) काठी	ब्रांड वरें प्रलग-प्रलग निर्माता/नियतिकर्ता से आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर निर्यात की जानी है।	
(ख) पीतल की फिटिंगों सहित लगाम और अग्राही।	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 4 प्रतिशत (केवल चार प्रतिशत)।	
(ग) पीतल/इस्पात का फिटिंगों सहित चालन-साज।	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 4.5 प्रतिशत (केवल चार दशमलव पांच प्रतिशत)।	
(घ) चमड़े के परिधान	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 2.5 प्रतिशत (केवल दो दशमलव पांच प्रतिशत)।	
(ङ) अन्यथा अधिनिर्दिष्ट, चमड़े का अन्य सभी सामान।	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 2 प्रतिशत (केवल दो प्रतिशत)। जमा	
	जहाँ ऊपर (घ) और (ङ) के अन्तर्गत आने वाले चमड़े के माल में, आयातित अथवा स्वदेशी जिप कसनियों फिट की हुई हों वहाँ निर्यात-कसियों को यथास्थिति सीमा शुल्क अथवा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क भी दिया जाएगा:	
	अतः निर्यातिकर्ता सहायक सीमा-शुल्क समाहर्ता के समाधानप्रद रूप में, निम्नलिखित के बारे में साक्ष्य प्रस्तुत करें:—	
	निर्यात मान में फिट की हुई संगत आकार की जिप कसनियों के प्रति नग पर आयात शुल्क अदा कर दिया गया है और जिप कसनियों उक्त चमड़े के माल के आयात की तारीख से पूर्व छः माह के भीतर ही आयात की गई हैं, और जिप कसनियों की उक्त तादाद—	
(क) चमड़े अथवा अन्य माल के किसी पहले के निर्यात के प्रति हिसाब में नहीं ली गई है तथा उससे सहसंबंधित नहीं की गई है और/अथवा		
(ख) इस रूप में अथवा किसी अन्य रूप में प्रतिप्रदायगी के दावे के साथ अथवा उसके बिना पहले पुनः निर्यात नहीं की गई है।		
	अथवा	

1	2	3	1	2	3
		(1) नियति माल के साथ फिट की गई संगत आकार की जिप कस-नियों के प्रति मग पर केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क और नमक अधिनियम 1944 की प्रथम अनु-सूची की मद 53 के अन्तर्गत समस्त केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क प्रदा किया गया हो, और उक्त जिप कसनिमां उक्त खमड़े के माल के नियति की तारीख से पूर्व छ. महीने के भीतर प्रारत कर ली गई हो, जमा			Where the leather goods covered by (d) and (e) above are fitted with imported or indigenous zip fasteners the exporters shall also be paid the duty of Customs or the duty of Central Excise, as the case may be :—
		(2) उप क्रम सं० 5902 के अन्तर्गत उनमें उल्लिखित आकारों के लिए स्वीकार कर पर प्रति प्रदायगी।			Provided that the exporter produces evidence to the satisfaction of the Assistant Collector of Customs regarding the—
					Import duty paid per piece of zip fastener of the relevant size fitted to the export goods and the said zip fastener has been imported within a period of six months preceding the date of importation of the said leather goods, and the said quantity of zip fasteners has not been—

यह सार्वजनिक सूचना जून 1979 के प्रथम दिवस से लागू हुई समझी जाएगी।

**No. DRAWBACK/PN-93/79.**— Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India, Extra-ordinary dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1 dated the 15th October, 1971, as amended from time to time :—

After sub-serial No. 2103 and the entries relating thereto, the following shall be added, namely :—

Sub-Sl. No.	Description of goods	Rate of drawback
2104	Light and Heavy categories of leather goods not otherwise specified, excluding those made of reptile skins, fur skins and hair-on skins	
(a)	Saddlery	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturers/exporters.
(b)	Bridles and Halters with brass fittings.	4% (Four per cent only) of the f.o.b. value.
(c)	Driving Harness with brass/steel fittings.	4.5% (Four point five per cent only) of the f.o.b. value.
(d)	Leather Apparel.	2.5% (Two point five per cent only) of the f.o.b. value.
(e)	All other leather goods not otherwise specified.	2% (Two per cent only) of the f.o.b. value. PLUS

- (a) Similarly co-related to and accounted for against any other previous exportation of leather or other goods and/or
- (b) Previously re-exported as such or in any other form, with or without claim for drawback.

#### OR

- (i) The whole of the duty of Excise paid per piece of Zip fasteners of relevant size fitted to the export goods, under Item 53 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944, and the said Zip fasteners have been procured within six months from the date of exportation of the said leather goods, plus
- (ii) The drawback at the rate admissible under sub-serial No. 5902 for the sizes mentioned therein.

This Public Notice shall be deemed to have come into force on the 1st day of June, 1979.

सं० प्रतिप्रदायगी/सा०सू० 94/79—सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादनशुल्क प्रतिप्रदायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, समाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/फा०सं० 602/2/70-प्र०ध०) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार समय-समय पर यथासंशोधित मार्गजनिक सूचना सं० प्रतिप्रदायगी/सा०सू० 1, दिनांक 15 अक्टूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है—

उपक्रम सं० 2901 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित जोना जाएगा, अर्थात् —

उपक्रम सं०	माल का विवरण	प्रति प्रदायगी की दर
1	2	3
1	2	4
2902	खमड़े के अपर सक्षित जूते (परन्तु जिनमें टायर सोल वाले जूते और कोल्हापुरी चप्पलें शामिल नहीं हैं)	10-5-79 से 31-5-79 तक 1-6-79 से
	(i) जहाँ पोत पर्यन्त नि.शुल्क मूल्य 20 00 रु० प्रति जोड़ा से कम हो।	पोत पर्यन्त नि.शुल्क मूल्य का 5 प्रतिशत (केवल पाँच प्रतिशत)
	(ii) जहाँ पोत पर्यन्त नि.शुल्क मूल्य प्रति जोड़ा 20.00 रु० अथवा उससे अधिक हो परन्तु प्रति जोड़ा 40.00 रु० से कम हो।	पोत पर्यन्त नि.शुल्क मूल्य का 3 4 प्रतिशत (केवल तीन दशमलव चार प्रतिशत) अथवा 0 95 रु० (केवल पचास पैसे) प्रति जोड़ा, जो भी अधिक हो।
	(iii) जहाँ पोत पर्यन्त नि.शुल्क मूल्य प्रति जोड़ा 40.00 रु० अथवा उससे अधिक हो।	पोत पर्यन्त नि.शुल्क मूल्य का 2 4 प्रतिशत (केवल दो दशमलव चार प्रतिशत) अथवा 1 05 रु० (केवल एक रुपया पाँच पैसे) प्रति जोड़ा, जो भी अधिक हो।

जमा

जहाँ उपर्युक्त माल में आयातित अथवा स्वदेशी जिप कसमी फिट हो, वहाँ निर्यातकर्ता को यथास्थिति सीमाशुल्क अथवा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क का भी भुगतान किया जाएगा—

बशर्ते निर्यातकर्ता सहायक सीमाशुल्क समाहर्ता के समाधानप्रद रूप में निम्नलिखित के सबंध में यह साक्ष्य प्रस्तुत करें—

निर्यात मास में फिट की हुई संगत आकार की जिप कसनियों के प्रति नग पर आयात शुल्क अथवा कर दिया गया है तथा उपर्युक्त जिप कसमी निर्यात-माल के निर्यात की तारीख से पूर्व छ माह की अवधि के भीतर आयात की गई हैं और जिप कसनियों की उक्त ताबाद—

(क) जूते अथवा अन्य माल के किसी पहले के निर्यात के प्रति हिसाब में नहीं की गई है तथा उसी प्रकार उससे सह-संबंधित नहीं की गई हैं और अथवा

(ख) इस रूप में अथवा किसी भी अन्य रूप में प्रति प्रदायगी के दावे के माथ अथवा उसके बिना पहले पुन निर्यात नहीं की गई है।

अथवा

(i) निर्यात माल में फिट की गई संगत आकार की जिप कसनियों के प्रति नग पर केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क और नमक अधिनियम 1944 की प्रथम अनुसूची की मख 53 के अन्तर्गत समस्त उत्पादनशुल्क अथवा कर दिया गया है और उपर्युक्त जिप कसनियों माल के निर्यात की तारीख से पूर्व छ महीने की अवधि के भीतर प्राप्त कर ली गई हैं,

1	2	3	4
			जमा
			(ii) उपक्रम सं० 5902 के अंतर्गत, उसमें उल्लिखित आकारों के लिए स्वीकार्य दर पर प्रति आयायी ।
2903.	जूते के हिस्से अर्थात्, (i) चमड़े के छपर	10-5-79 से 31-5-79 तक पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 3 प्रतिशत (केवल तीन प्रतिशत)	1-6-79 से पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 3.5 प्रतिशत (केवल तीन वंशमूल्य पांच प्रतिशत)
	(ii) चमड़े के बने सोल	जहां चमड़े के छपर में आयातित अथवा स्वदेशी जिप कनक्निया फिट हों, वहां निर्यातकर्ता को सीमाशुल्क अथवा केन्द्रीय उत्पादनशुल्क, जैसी भी स्थिति हो, दिया जाएगा, जैसा कि उपक्रम सं० 2902 के अंतर्गत निर्धारित है परन्तु उसमें दी गई शर्तें पूरी होती हों। पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 5 प्रतिशत (केवल पांच प्रतिशत)	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 5 प्रतिशत (केवल पांच प्रतिशत)
	(iii) सॉलिड रबर से बने सोल	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 2 प्रतिशत (केवल दो प्रतिशत)	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 4 प्रतिशत (केवल चार प्रतिशत)
2904	प्लास्टिक सामग्री से बने जूते और उनके हिस्से	10-5-79 से क्रम सं० 19 और उसको उप क्रम संख्याओं के अंतर्गत सगत सामग्री अन्तर्दस्तु पर लागू दरो पर ।	

उपर्युक्त माल के संबंध में अलग-अलग निर्यात/निर्यातकर्ता के लिए नियम की गईं सभी ब्राउ वर, इस मार्गजनि सूचना के लागू होते ही वापस ले ली गईं समझी जाएगी ।

**No. DRAWBACK/PN-94/79.**—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India Extra-ordinary dated the 25th August 1971) the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1 dated the 15th October, 1971 as amended from time to time :—

After sub-serial No. 2901 and the entries relating thereto the following shall be added namely :—

Sub Sl. No.	Description of goods	Rate of drawback
1	2	3
2902.	Footwear with leather upper (but excluding those with tyre soles and Kolhapuri Chappals)—	With effect from 10-5-79 to 31-5-79
	(i) where the f.o.b. value is less than Rs. 20.00 per pair.	5% (Five per cent only) of the f.o.b. value.
	(ii) where the f.o.b. value is Rs. 20.00 per pair or more but less than Rs. 40.00 per pair.	3.4% (Three point four per cent only) of the f.o.b. value of Rs. 0.95 (Paise ninety five only) per pair whichever is more.
	(iii) where the f.o.b. value is Rs. 40.00 per pair or more.	2.4% (Two point four per cent only) of the f.o.b. value or Rs. 1.05 (Rupee one and paise five only) per pair whichever is more.
		5% (Five per cent only) of the f.o.b. value.
		3.7% (Three point seven per cent only) of the f.o.b. value or Re 1.00 (Rupee one only) per pair whichever is more.
		2.6% (Two point six per cent only) of the f.o.b. value or Re. 1.10 (Rupee one and paise ten only) per pair whichever is more.
		PLUS
	Where the above goods are fitted with imported or indigenous zip fasteners the exporter shall also be paid the duty of Customs or the duty of Central Excise as the case may be :—	
	Provided that the exporter produces evidence to the satisfaction of the Assistant Collector of Customs regarding the—	
	Import duty paid per piece of zip fastener of the relevant size fitted to the export goods and the said zip fastener has been imported within a period of six months preceding the date of exportation of the export goods and the said quantity of zip fasteners has not been—	
	(a) Similarly co-related to and accounted for against any other previous exportation of footwear or other goods and/or	
	(b) Previously re-exported as such or in any other form with or without claim for drawback	
	OR	
	(i) The whole of the duty of Excise paid per piece of zip fasteners of the relevant size fitted to the export goods under item 53 of the first Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 and the said zip fasteners have been procured within six months from the date of the exportation of the goods, plus	
	(ii) The drawback at the rate admissible under sub-serial No. 5902 for the sizes mentioned therein.	
2903.	Parts of footwear namely	With effect from 10-5-79 to 31-5-79
	(i) Leather uppers.	3% (Three per cent only) of the f.o.b. value.
		With effect from 1-6-79
		3.5% (Three point five per cent only) of the f.o.b. value.

1	2	3
		PLUS
		The exporter shall also be paid the duty of Customs or the duty of Central Excise as the case may be where the leather uppers are fitted with imported or indigenous zip fasteners as specified under sub-serial No. 2902 subject to the conditions mentioned therein.
(ii) Soles made of leather.	5% (Five per cent only) of the f.o.b. value.	5% (Five per cent only) of the f.o.b. value.
(iii) Soles made of Synthetic rubber	2% (Two per cent only) of the f.o.b. value.	4% (Four per cent only) of the f.o.b. value
2904. Footwear and parts thereof made of plastic materials.	With effect from 10-5-1979	At the rates applicable to the relevant material content under serial No. 19 and its sub-serial numbers.

All brand rates fixed for individual manufacturer/exporter in respect of the above goods stand withdrawn with the coming into effect of this Public Notice.

सं. प्रतिप्रदायगी सां.सू. 95/79—सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिप्रदायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, अनाधिकार, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं. 52/फा.सं. 602/2/70-प्र.अं.) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार समय-समय पर यथासंशोधित सार्वजनिक सूचना सं. प्रतिप्रदायगी/सां.सू. 1, दिनांक 15 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एन.द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है—

उपक्रम सं. 5009 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थापन पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

उपक्रम सं.	माल का विवरण	प्रतिप्रदायगी की दर
1	2	3
5009.	रबर बेस सहित अथवा पीतल अन्तर्वस्तु, यदि कोई हो, उसके बिना मोटर के बारे में उपक्रम सं. 3805 गाड़ियां (घाटो) और (ग) के अन्तर्गत लागू प्रति-आवधिकित द्यूब वाल्व। अदायगी की दर पर	
	जमा	
	पी.वी.सी. अन्तर्वस्तु, यदि कोई हो, के बारे में उपक्रम सं. 1918(क) के अन्तर्गत लागू प्रतिप्रदायगी की दर पर	
	जमा	
	कोल्ड रोल्ड इस्पात की जहर/पट्टियां अन्तर्वस्तु, यदि कोई हो, के लिए उपक्रम सं. 3640 (ख) के अन्तर्गत लागू प्रतिप्रदायगी की दर पर	
	जमा	
	प्राकृतिक रबर अन्तर्वस्तु, यदि कोई हो, के बारे में प्रतिप्रदायगी 15 रु० (केवल पन्द्रह रुपये) प्रति क्विंटल की दर पर	
	जमा	
	ब्यूटाइल रबर अन्तर्वस्तु के संघर्ष से प्रतिप्रदायगी 3.00 रु० (केवल तीन रुपये) प्रति किलो ग्राम की दर पर।	

यह सार्वजनिक सूचना दिसम्बर, 1979 के प्रथम दिवस से लागू हुई समझी जाएगी।

उपर्युक्त उत्पाद के बारे में नियत की गई सभी प्राप्ति दरें इस सार्वजनिक सूचना के लागू होने की वापस ले ली गई समझी जाएगी।

महेश कुमार, अवर सचिव

No. DRAWBACK/PN-95/79. -Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India Extraordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1 dated the 15th October, 1971, as amended from time to time :—

For sub-serial No. 5009 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

Sub- S. No.	Description of goods	Rate of drawback
5009.	Auto, bicycle tube valves with or without rubber base.	Drawback at the rate applicable under sub-serial No 3805(c) in respect of brass content, if any
		PLUS
		Drawback at the rate applicable under sub-serial No. 1918(a) in respect of PVC content, if any
		PLUS
		Drawback at rate applicable under sub-serial No. 3640(f) for cold rolled Steel Sheet/ Strips content, if any
		PLUS
		Drawback at Rs. 15/- (Rupees fifteen only) per quintal in respect of natural rubber content, if any
		PLUS
		Drawback at Rs. 3.00 (Rupees three only) per kg. in respect of butyl rubber content, if any.

This Public Notice shall be deemed to have come into force on the 1st day of December, 1979.

All brand rates fixed in respect of the above product will stand withdrawn with the coming into force of this Public Notice.

MAHESH KUMAR, Under Secy.

